



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 2022

चैत्र 17, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 435 / 77-3-2022-70(एम)-2021

लखनऊ, 7 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

प0आ0-66

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला हापुड़ की तहसील-गढमुक्तेश्वर/हापुड़ के ग्राम भदस्थाना में 0.0265 हेक्टेयर, फरीदपुर सिम्भावली में 4.7860 हेक्टेयर, मुरादपुर में 0.6968 हेक्टेयर, हिम्मतपुर में 0.7325 हेक्टेयर, राजपुर में 0.1176 हेक्टेयर, सिखैडा मुरादाबाद में 5.2561 हेक्टेयर, चुचावली में 0.5447 हेक्टेयर, भैना-सदरपुर में 1.1471 हेक्टेयर, बहावपुर-ठेरा में 3.9307 हेक्टेयर, बरारी में 1.2206 हेक्टेयर, आलमनगर बांगर में 0.7976 हेक्टेयर, चांदनेर में 2.7451 हेक्टेयर, काठ उर्फ शंकराटीला बांगर में 0.2103 हेक्टेयर, पीरनगर में 0.4545 हेक्टेयर, बहादुरगढ में 3.7063 हेक्टेयर, सिंगनपुर में 0.0265 हेक्टेयर, गोहरा आलमगीरपुर में 0.5800 हेक्टेयर, उदयपुर में 0.3130 हेक्टेयर, माधापुर मौज्जमपुर में 0.1102 हेक्टेयर, हाजीपुर में 1.7499 अर्थात् जिला हापुड़ में कुल 29.1880 हेक्टेयर भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी है जिसने दिनांक 04.04.2022 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(क) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी0 चौड़ाई की भूमि पट्टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है ताकि इस परियोजना से विस्थापन नगण्य हो।

(ख) यद्यपि इस परियोजना के संबंधित ग्रामों में कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर के प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, उत्तम आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होना संभाव्य है। इससे भू-धृतियों में होने वाली ह्रास की क्षति की पूर्ति होगी।

(घ) लम्बी दूरी की इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ना संभाव्य होगा जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा।

(ङ.) तीव्र एवं अपेक्षाकृत उत्तम परिवहन साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(च) अतएव बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुति निम्नानुसार है –

(एक) जिला हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोकहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(दो) इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षाकृत अधिक है और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि से अत्यंत कम है।

4-समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए सर्किल दर का पुनरीक्षण, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग/कलेक्टर, हापुड़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो।

6-अतएव, राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	पूठ	भद्रस्याना	26	0.0115
				29	0.0510
				<b>योग</b>	<b>0.0625</b>
		गढ़मुक्तेश्वर	फरीदपुर सिम्भावली	455	0.1603
				609	0.9645
				608	0.5620
				611	0.2242
				449	0.4030
				451	0.5708

1	2	3	4	5	6
हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	गढ़मुक्तेश्वर	फरीदपुर सिम्भावली	471	0.1559
				468	0.0020
				467	0.1630
				450	0.3160
				421	0.0735
				420	0.2381
				419	0.4130
				398	0.0011
				391	0.0016
				595	0.0096
				403	0.4237
				602	0.0312
				593	0.0018
				597	0.0285
				605	0.0232
				439	0.0190
				<b>योग</b>	<b>4.7860</b>
			मुरादपुर	74क	0.0086
				क308	0.0011
				क64	0.0003
				74मि	0.2078
				45/1	0.0017
				322	0.0865
				47	0.0571
				54मि	0.0540
				1000	0.0472
				319	0.0746
				585	0.0017
				619	0.0020
				48	0.0009
				68	0.0728
				306	0.0410
				620	0.0370
				104	0.0025
				<b>योग</b>	<b>0.6968</b>
			हिम्मतपुर	102	0.0236
				106	0.0146
				97	0.0033

1	2	3	4	5	6
हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	गढ़मुक्तेश्वर	हिम्मतपुर	99	0.0807
				101	0.0327
				135	0.1342
				107	0.0368
				122	0.0092
				125	0.0336
				123	0.0034
				126	0.3604
				<b>योग</b>	<b>0.7325</b>
			राजपुर	1263	0.0016
				1227	0.1160
				<b>योग</b>	<b>0.1176</b>
			सिखैडा मुरादाबाद	828	0.0248
				833	0.2280
				853	0.1694
				854	1.2436
				876	1.0914
				869	0.1254
				813	0.6662
				874	0.2851
				845	0.0128
				871	0.0001
				840	0.3867
				842	0.0086
				841ख	0.0119
				909	0.3767
				873	0.0503
				905	0.2420
				832	0.0185
				839	0.0102
				831	0.0020
				807	0.0282
				841ख,	0.0106
				842	0.0072
				832	0.0110
				840	0.0289
				831	0.0195
				873ख	0.0020

1	2	3	4	5	6
हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	गढ़मुक्तेश्वर	सिखैडा मुरादाबाद	841ख,	0.0106
				842	0.0072
				832	0.0110
				840	0.0289
				831	0.0195
				873ख	0.0020
				841ख,	0.0106
				842	0.0072
				832	0.0110
				840	0.0289
				831	0.0195
				873घ	0.0020
				909 ग	0.0211
				873 ख	0.0058
				873 ग	0.0006
				873 घ	0.0030
				909ग	0.0061
				<b>योग</b>	<b>5.2561</b>
		पूठ	चुचावली	179	0.3885
				124	0.0062
				172	0.1470
				78	0.0030
				<b>योग</b>	<b>0.5447</b>
			भैना सदरपुर	490	0.1280
				553मि	0.4160
				880	0.0608
				883	0.0340
				855	0.4403
				555	0.0050
				540	0.0630
				<b>योग</b>	<b>1.1471</b>
			बहावपुर ठेरा	61	0.1230
				62	0.1150
				63	0.2250
				64	0.0780
				65	0.0340
				66	0.0510

1	2	3	4	5	6
हापुड	गढ़मुक्तेश्वर	पूठ	बहावपुर ठेरा	67	0.1430
				68	0.2070
				70	0.0330
				184	0.1710
				185	0.2330
				187	0.1390
				188	1.6070
				290	0.2160
				293मि	0.1900
				293मि	0.0630
				293मि	0.0200
				146	0.0030
				158	0.0287
				151	0.2380
				150	0.0130
				<b>योग</b>	<b>3.9307</b>
			बरारी	160	1.1303
				134	0.0540
				220	0.0020
				169	0.0343
				<b>योग</b>	<b>1.2206</b>
			आलमनगर बांगर	966	0.0036
				720	0.0172
				717	0.5580
				793	0.2116
				769	0.0072
				<b>योग</b>	<b>0.7976</b>
			चांदनेर	411	0.0460
				417	0.4950
				393	0.0745
				177	0.3870
				169	0.7600
				164	0.4448
				176	0.0364
				341	0.0135
				273	0.0391
				276	0.1897
				413	0.0712
				419	0.0513

1	2	3	4	5	6
हापुड	गढ़मुक्तेश्वर	पूठ	चांदनेर	286	0.0995
				393	0.0371
				<b>योग</b>	<b>2.7451</b>
			कांठ उर्फ शंकरा टीला बांगर	317	0.1080
				293मि	0.0982
				311	0.0041
				<b>योग</b>	<b>0.2103</b>
		गढ़मुक्तेश्वर	पीरनगर	550	0.2150
				513क	0.1800
				513ख	0.0044
				547क	0.0010
				547ख	0.0016
				523	0.0480
				398 खमि <sub>0</sub>	0.0045
				<b>योग</b>	<b>0.4545</b>
		पूठ	बहादुरगढ़	1341 मि	0.0617
				1386	0.2074
				1557	0.0251
				519	0.1890
				510	0.3380
				514	0.0650
				182	0.0630
				226	0.0756
				1529	0.0333
				229	0.0010
				1342	0.0547
				487	0.1169
				214	0.6480
				211	0.0364
				212	0.0049
				1338 ख	0.0075
				216	0.0148
				1339 ख	0.1363
				1337	0.0985
				457	0.0723
				170	0.0098
				489	0.2530

1	2	3	4	5	6
हापुड	गढ़मुक्तेश्वर	पूठ	बहादुरगढ़	486	0.0641
				791	0.0088
				1338 ख	0.0037
				1338 ख	0.0037
				177मि0	0.0096
				133	0.0443
				1339 ख	0.0039
				1339 ख	0.0039
				1339 ख	0.0039
				1339 ख	0.0038
				1339 ख	0.0039
				804	0.0540
				461ख	0.3100
				461ग	0.5751
				225	0.0630
				226क	0.0384
				<b>योग</b>	<b>3.7063</b>
			सिंगनपुर	515	0.0265
				<b>योग</b>	<b>0.0265</b>
			<b>कुल योग</b>		<b>26.4349</b>
	हापुड़	हापुड़	गोहरा आलमगीरपुर	1032	0.0400
				1095	0.3400
				1096	0.0204
				1309	0.0660
				1370	0.1100
				1358	0.0036
				<b>योग</b>	<b>0.5800</b>
			उदयपुर	680	0.2010
				700	0.0880
				702	0.0240
				<b>योग</b>	<b>0.3130</b>
			माधापुर मौज्जमपुर	105	0.1062
				573	0.0035
				76	0.0005
				<b>योग</b>	<b>0.1102</b>
			हाजीपुर	1094	0.0620
				926	0.0003
				807	0.1275



1	2	3	4	5	6
हापुड़	हापुड़	हापुड़	हाजीपुर	808	0.4120
				809	0.5231
				810	0.6250
				<b>योग</b>	<b>1.7499</b>
				<b>कुल योग</b>	<b>2.7531</b>
<b>तहसील (गढ़मुक्तेश्वर + हापुड़)</b>				<b>महायोग</b>	<b>29.1880</b>

7—राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने, भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिए भी कलेक्टर को प्राधिकृत करती हैं।

8—उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के विरुद्ध लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—उक्त अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति, ऐसी अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात् विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, हापुड़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
अरविन्द कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 435 /LXXVII-3-22-70(M) /21 dated 7 April, 2022:

No. 435 /LXXVII-3-22-70(M) /21

*Dated Lucknow, April 7, 2022*

Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 29.1880 Hectares of land is required in the Village Bhadsyana Area 0.625 Hect, Faridpur-Simbholi Area 4.7860 Hect, Muradpur Area 0.6968 Hect, Himmatpur Area 0.7325 Hect, Rajpur Area 0.1176 Hect, Sikheda-Muradabad Area 5.2561 Hect, Chuchawali Area 0.5447 Hect, Bhaina-Sadarpur Area 1.1471 Hect, Bahavpur- Thera Area 0.6968 Hect, Barari Area 1.2206 Hect, Alamnagar-Bangar Area 0.7976 Hect, Chandner Area 2.7451 Hect, Kanth Urf Shankratila Bangar Area 0.2103 Hect, Peernagar Area 0.4545 Hect, Bhadurgarh Area 3.7063 Hect, Singanpur Area 0.265 Hect, Gohra-Alamgirpur Area 0.5800 Hect, Udaipur, Area 0.3130 Hect, Madhapur Mozzampur Area 0.1102 Hect, Hajipur Area 1.7499 Hect Pargana Garhmukteshwar/Pooth Tehsil Garhmukteshwar And Hapur District Hapur is required for public purpose, namely, Ganga Expressway Project through Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority .

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on 04.04.2022 .

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows-

(a) Ganga Expressway is a linear project which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way this project is not affecting major or total area of any village. So the displacement from this project is negligible.

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase in farm machinery and development of irrigation facilities.

(c) The compensation of the land acquisition is likely to develop alternate employment measures, construction of better houses, and development of means of transport and agriculture technology. This will compensate the loss due to reduction in land holdings.

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the state capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial activities in the remote areas . It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes.

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport.

(f) Therefore, the recommendation of Multi Disciplinary Expert group is as follows:-

(i) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Ganga Expressway Project in District Hapur and it serves the public purpose.

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In reference with the above recommendations of the committee, it is worthy to be noted that the revision of circle rate for the area affected by Ganga Expressway project, will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Hapur per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section-26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below, is needed for public purpose:-

#### SCHEDULE

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA TO BE ACQUIRED (IN HECT.)
1	2	3	4	5	6
Hapur	Garhmukteshwar	Pooth	Bhadsyana	26	0.0115
				29	0.0510
				<b>Total</b>	<b>0.0625</b>
		Garhmukteshwar	Faridpur Simbholi	455	0.1603
				609	0.9645

1	2	3	4	5	6
Hapur	Garhmukteshwar	Garhmukteshwar	Faridpur Simbholi	608	0.5620
				611	0.2242
				449	0.4030
				451	0.5708
				471	0.1559
				468	0.0020
				467	0.1630
				450	0.3160
				421	0.0735
				420	0.2381
				419	0.4130
				398	0.0011
				391	0.0016
				595	0.0096
				403	0.4237
				602	0.0312
				593	0.0018
				597	0.0285
				605	0.0232
				439	0.0190
				<b>Total</b>	<b>4.7860</b>
			Muradpur	74 ka	0.0086
				308ka	0.0011
				64ka	0.0003
				74 m	0.2078
				45/1	0.0017
				322	0.0865
				47	0.0571
				54 m	0.0540
				1000	0.0472
				319	0.0746
				585	0.0017
				619	0.0020
				48	0.0009
				68	0.0728
				306	0.0410
				620	0.0370
				104	0.0025
				<b>Total</b>	<b>0.6968</b>
			Himmatpur	102	0.0236
				106	0.0146
				97	0.0033
				99	0.0807
				101	0.0327
				135	0.1342

1	2	3	4	5	6
Hapur	Garhmukteshwar	Garhmukteshwar	Himmatpur	107	0.0368
				122	0.0092
				125	0.0336
				123	0.0034
				126	0.3604
				<b>Total</b>	<b>0.7325</b>
			Rajpur	1263	0.0016
				1227	0.1160
				<b>Total</b>	<b>0.1176</b>
			Sikheda Muradabad	828	0.0248
				833	0.2280
				853	0.1694
				854	1.2436
				876	1.0914
				869	0.1254
				813	0.6662
				874	0.2851
				845	0.0128
				871	0.0001
				840	0.3867
				842	0.0086
				841 kha	0.0119
				909	0.3767
				873	0.0503
				905	0.2420
				832	0.0185
				839	0.0102
				831	0.0020
				807	0.0282
				841 kha	0.0106
				842	0.0072
				832	0.0110
				840	0.0289
				831	0.0195
				873 kha	0.0020
				841 kha	0.0106
				842	0.0072
				832	0.0110
				840	0.0289
				831	0.0195
				873 kha	0.0020
				841 kha	0.0106
				842	0.0072
				832	0.0110
				840	0.0289
				831	0.0195
				873 kha	0.0020
				841 kha	0.0106
				842	0.0072
				832	0.0110
				840	0.0289

1	2	3	4	5	6
Hapur	Garhmukteshwar	Garhmukteshwar	Sikheda Muradabad	831	0.0195
				873 gha	0.0020
				909 ga	0.0211
				873 kha	0.0058
				873 ga	0.0006
				873gha	0.0030
				909 ga	0.0061
				<b>Total</b>	<b>5.2561</b>
		Pooth	Chuchawali	179	0.3885
				124	0.0062
				172	0.1470
				78	0.0030
				<b>Total</b>	<b>0.5447</b>
		Pooth	Bhaina Sadarpur	490	0.1280
				553 m	0.4160
				880	0.0608
				883	0.0340
				855	0.4403
				555	0.0050
				540	0.0630
				<b>Total</b>	<b>1.1471</b>
		Pooth	Bhavpur Thera	61	0.1230
				62	0.1150
				63	0.2250
				64	0.0780
				65	0.0340
				66	0.0510
				67	0.1430
				68	0.2070
				70	0.0330
				184	0.1710
				185	0.2330
				187	0.1390
				188	1.6070
				290	0.2160
				293 m	0.1900
				293 m	0.0630
				293 m	0.0200
				146	0.0030
				158	0.0287
				151	0.2380
				150	0.0130
				<b>Total</b>	<b>3.9307</b>
		Pooth	Barari	160	1.1303
				134	0.0540

1	2	3	4	5	6
Hapur	Garhmukteshwar	Pooth	Barari	220	0.0020
				169	0.0343
				<b>Total</b>	<b>1.2206</b>
		Pooth	Alamnagar Bangar	966	0.0036
				720	0.0172
				717	0.5580
				793	0.2116
				769	0.0072
				<b>Total</b>	<b>0.7976</b>
		Pooth	Chandner	411	0.0460
				417	0.4950
				393	0.0745
				177	0.3870
				169	0.7600
				164	0.4448
				176	0.0364
				341	0.0135
				273	0.0391
				276	0.1897
				413	0.0712
				419	0.0513
				286	0.0995
				393	0.0371
				<b>Total</b>	<b>2.7451</b>
		Pooth	Kanth Urf Shankratila Bangar	317	0.1080
				293 m	0.0982
				311	0.0041
				<b>Total</b>	<b>0.2103</b>
		Garhmukteshwar	Peernagar	550	0.2150
				513 ka	0.1800
				513 kha	0.0044
				547 ka	0.0010
				547 kha	0.0016
				523	0.0480
				398 kha m	0.0045
				<b>Total</b>	<b>0.4545</b>
		Pooth	Bhadurgarh	1341 m	0.0617
				1386	0.2074
				1557	0.0251
				519	0.1890
				510	0.3380
				514	0.0650

1	2	3	4	5	6
Hapur	Garhmukteshwar	Pooth	Bhadurgarh	182	0.0630
				226	0.0756
				1529	0.0333
				229	0.0010
				1342	0.0547
				487	0.1169
				214	0.6480
				211	0.0364
				212	0.0049
				1338 kha	0.0075
				216	0.0148
				1339 kha	0.1363
				1337	0.0985
				457	0.0723
				170	0.0098
				489	0.2530
				486	0.0641
				791	0.0088
				1338 kha	0.0037
				1338 kha	0.0037
				177M	0.0096
				133	0.0443
				1339 kha	0.0039
				1339 kha	0.0039
				1339 kha	0.0039
				1339 kha	0.0038
				1339 kha	0.0039
				804	0.0540
				461kha	0.3100
				461ga	0.5751
				225	0.0630
				226ka	0.0384
				<b>Total</b>	<b>3.7063</b>
		Pooth	Singanpur	515	0.0265
				<b>Total</b>	<b>0.0265</b>
			<b>Total</b>		<b>26.4349</b>
	Hapur	Hapur	Gohra Alamgirpur	1032	0.0400
				1095	0.3400
				1096	0.0204
				1309	0.0660
				1370	0.1100
				1358	0.0036
				<b>Total</b>	<b>0.5800</b>

1	2	3	4	5	6
Hapur	Hapur	Hapur	Udaipur	680	0.2010
				700	0.0880
				702	0.0240
				<b>Total</b>	<b>0.3130</b>
			Madhapur Mozzampur	105	0.1062
				573	0.0035
				76	0.0005
				<b>Total</b>	<b>0.1102</b>
			Hajipur	1094	0.0620
				926	0.0003
				807	0.1275
				808	0.4120
				809	0.5231
				810	0.6250
				<b>Total</b>	<b>1.7499</b>
			<b>Total</b>		<b>2.7531</b>
<b>Tehsil (Garh Mukteshwar + Hapur) Grand Total</b>					<b>29.1880</b>

7. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

8. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9. Under section 11 (4) of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

**Note:** A site Plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Hapur .

By order,  
ARVIND KUMAR,  
*Apar Mukhya Sachiv.*